

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल और स्वच्छता विभाग

विषय: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के संबंध में अप्रैल, 2021 माह का मासिक सारांश।

स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण चरण- II में प्रगति

अप्रैल 2021 माह के दौरान, 1,05,501 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) और 3,256 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सीएससी) का निर्माण किया गया। माह के दौरान इस कार्यक्रम के तहत राज्यों को 11.97 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

जल जीवन मिशन (जेजेएम) में प्रगति

अप्रैल 2021 के दौरान, 9,17,798 परिवारों को कार्यशील घरेलू नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं।

जल जीवन संबंधी विशेषज्ञ समिति की बैठक

जल जीवन संबंधी विशेषज्ञ समिति की पहली बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, प्रो.के.विजय राघवन की अध्यक्षता में दिनांक 5 अप्रैल, 2021 को आयोजित की गई थी।

जेजेएम संबंधी वार्षिक कार्य योजना 2021-22

जल जीवन मिशन की वार्षिक कार्य योजना 2021-22 को अंतिम रूप देने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अपर सचिवों/प्रधान सचिवों/सचिवों के साथ दिनांक 9 और 10 अप्रैल, 2021, दिनांक 12 तथा 13 अप्रैल, 2021, दिनांक 15 से 17 अप्रैल, 2021, दिनांक 19 से 20 अप्रैल, 2021, दिनांक 22 तथा 23 अप्रैल, 2021 और दिनांक 26 से 30 अप्रैल, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठकें आयोजित की गई थीं। उपरोक्त वीडियो कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता सचिव, डीडीडब्ल्यूएस द्वारा की गई थी।

एसबीएम-जी 2021-22 संबंधी वार्षिक कार्यान्वयन योजनाएं (एआईपी)

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर और नगर हवेली, गोवा, मेघालय, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, लद्दाख, कर्नाटक, नागालैंड, ओडिशा, तेलंगाना, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, केरल और हरियाणा की वार्षिक कार्यान्वयन योजनाओं (एआईपी) 2021-22 की बैठकें दिनांक 13 अप्रैल, 2021 से 30 अप्रैल, 2021 तक डीडीडब्ल्यूएस, नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थीं। उपरोक्त बैठकों की अध्यक्षता अपर सचिव (एसबीएम-जी), डीडीडब्ल्यूएस द्वारा की गई थी। इन बैठकों में, 2021-22 की वार्षिक कार्यान्वयन योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

सरपंच संवाद

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डीडीडब्ल्यूएस, नई दिल्ली में 09.04.2021, 16.04.2021, 23.04.2021 और 30.04.2021 को "पीआरआई के साथ एक बातचीत" आयोजित की गई थी। प्रत्येक सरपंच संवाद में 7-9 सरपंच शामिल हुए। ओडीएफ स्थिरता, ओडीएफ प्लस और 15वें वित्त आयोग की निधियों और कोविड-19 के संबंध में की गई पहलों पर मुख्य चर्चा हुई।